



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 3—मार्च 9, 2007 (फाल्गुन 12, 1928)  
No. 9 NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 3—MARCH 9, 2007 (PHALGUNA 12, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4

## [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई त्रिविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]  
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी 2007

सं. बैंपवि. सं. आईटी बीसी. 57/12.01.001/2006-2007—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 11 दिसंबर 2006 की अपनी अधिसूचना बैंपवि. सं. आईटी बीसी. 44/12.01.001/2006-2007 का अधिक्रमण करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा रखा जानेवाला अपेक्षित औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) नीचे उल्लिखित प्रभावी तारीखों से, उनके समक्ष दर्शाए गए अनुसार होगा:--

प्रभावी तारीख (अर्थात् निम्नलिखित तारीख से प्रारंभ होने वाला पखवाड़ा)	निवल मांग तथा मीयादी देयताओं पर सीआरआर (प्रतिशत)
17 फरवरी 2007	5.75
03 मार्च 2007	6.00

आनंद सिन्हा  
कार्यपालक निदेशक

## सरकारी और बैंक लेखा विभाग

(केन्द्रीय कार्यालय)

मुंबई, दिनांक 15 फरवरी 2007

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं. एफ. (8) 70/बी 52 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए लोक ऋण नियमावली, 1946 के नियम 18 के अनुसरण, जनवरी 2007 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई-400 008 को संसूचित करें।

सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग "क" में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग "ख" में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है।

## सूची "क"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1	2	3	4	5	6
			--कुछ नहीं--		
			सूची "ख"		
			चेन्नै सर्कल		
			9% राहत पत्र 1999 (डीमैट)		
एम.एस.सी. 001511	रु. 60,000/-	के. बी. वरधीस	क्युमुलेटिव	के. बी. वरधीस	01--16 नवंबर 2006

जे. एम. बंवा  
सहायक प्रबंधक

## भारतीय स्टेट बैंक

सहयोगी एवं अनुषंगी समूह

मुंबई, दिनांक 3 फरवरी 2007

एस. बी. डी. क्र. 11/2007---भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की उप धारा (1) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से स्टेट बैंक ने निम्नलिखित बैंकों के लिए उनके नाम के आगे लिखी लेखा परीक्षा फर्मों को लेखा परीक्षक नियुक्त किया है:--

बैंकों का नाम	लेखा परीक्षक का नाम
1	2
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	मैसर्स एस. सी. अजमेरा एण्ड कं., 18 टेक्नोक्रेट हाउसिंग सोसायटी, मोती मागरी स्कीम, उदयपुर-313004 मैसर्स बी. एल. अजमेरा एण्ड कं., मालजी छोगालाल ट्रस्ट बिल्डिंग एम. आइ. रोड, जयपुर-302001 मैसर्स ओ. पी. बागला एण्ड कं., 8/12, कालकाजी एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110009. मैसर्स एलियास जौर्ज एण्ड कं., बी-16, एच.आइ.जी. फ्लैट्स गांधी नगर, कदवनतरा, कोचीन-682020. मैसर्स सी. आर. मेहता एण्ड कं., 21 गोलीमार गार्डन, भारतीय पेट्रोलियम के सामने, बवानी सिंह रोड, जयपुर-302001.

1	2
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	मैसर्स एस. मान एण्ड कं., 1006, दसवीं मंजिल, विक्रान्त टावर, राजिन्दर प्लेस, नई दिल्ली-110008. मैसर्स दुगर एण्ड एसोसिएट्स, 13 कम्युनिटी सेंटर, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली-110065. मैसर्स कपूर टण्डन एण्ड कं., 24/57, सेन्ट्रल चैस्ट क्लिनिक के सामने, विरहाना रोड, कानपुर-208001. मैसर्स दिनेश मेहता एण्ड कं., 21, दयानन्द मार्ग, दरयागन्ज, नई दिल्ली-110002. मैसर्स श्रीधर सुरेश एण्ड राजागोपालन, 3-बी 302, ग्रीन हेवन, न्यू-26, तीसरा मैन रोड, गांधी नगर अदयार = नं. 19, चेन्नई-600020.
स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	मैसर्स शर्मा गोयल एण्ड कं., ए. 47, नीचली तल मंजिल, हौज़ खास, नई दिल्ली-110016. मैसर्स धिया एण्ड कं., डी-23, इन्द्रपुरी कालोनी, लाल कोठी, पंकज शिंघवि मार्ग, जयपुर-302005. मैसर्स राज हर गोपाल एण्ड कं., 412, अंशल भवन, 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001. मैसर्स एम मेहता एण्ड कं., 11/5 साठथ तुकागन्ज, नाथ मंदिर रोड, इन्दौर-452001.
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	मैसर्स बी. वी. राव एण्ड कं., फ्लैट नं. जी-6, अमृता कोर्ट, डीआर नं. 30-8-29, भानू स्ट्रीट, दाबा गार्डन विशाखापटनम-530020. मैसर्स एस. के. बसु एण्ड कं., टेम्पल चेम्बर्स, दूसरी मंजिल, 6 ओल्ड, पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कोलकाता-70000 मैसर्स एच.एस. अहुजा एण्ड कं., एच-61, गोविन्द मेन्शन, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001. मैसर्स एल. के. केजरीवाल एण्ड कं., 508 आशियाना टावर्स, एक्जीबिशन रोड, पटना-800001.
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	मैसर्स गुप्ता गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स, 142 सेक्टर-3, त्रिकुटा नगर, जम्मू-180012. मैसर्स खन्ना एण्ड कं., 26, कृष्ण निकेतन, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002. मैसर्स राममूर्ति (एन) एण्ड कं., गुलशन मंजिल, 4-1-1229, बोगुलकुंटा, हैदराबाद-500001. मैसर्स गुप्ता भल्ला एण्ड एसोसिएट्स, एचसीओ 837-38 सेक्टर-22ए, चंडीगढ़-160022. मैसर्स एन.डी. कपूर, एण्ड कं., 2 'अ' शंकर मार्केट, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001.
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	मैसर्स रावला एण्ड कं., 504, सूर्य किरन, 19, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001. मैसर्स गुहा नन्दी एण्ड कं., कामर्स हाऊस, पांचवी मंजिल, कमरा नं. 8 डी एण्ड इ, 2 'अ', गनेश अवेन्यु, कोलकाता-700013. मैसर्स चोकशि एण्ड चोकशि, 101/102 क्षमालया प्रथम मंजिल, 37, सर वी. ठाकरसी मार्ग, न्यू मरिन लाई मुम्बई-400020. मैसर्स ए. आर. विश्वनाथन एण्ड कं., 32/2, पहली मंजिल, पांचवा मेन रोड, चामराज पेट, बेंगलूर-5600
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	मैसर्स श्री एसोसिएट्स, 3 बी, गार्स्टिन प्लेस, दूसरी मंजिल, कोलकाता-700 001. मैसर्स राव एसोसिएट्स, 17/1 शेबाद्री रोड, गांधीनगर, बेंगलूर-560 009. मैसर्स के.सी. भट्टाचारजी एण्ड पॉल, 2, चर्च लेन, तीसरी मंजिल, रूम नं. 304-बी, कोलकाता-700 00 मैसर्स ए.जे. शाह एण्ड कं., फोर्ट चेम्बर्स, सी ब्लॉक, 65, टेमरिण्ड लेन, फोर्ट, मुंबई-400 023. मैसर्स एम.एल. पुरी एण्ड कं., 407, नई दिल्ली हाऊस, 27, बाराखम्भा रोड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110 0

वैसे लेखा परीक्षक जो वर्ष 2006-2007 से नियुक्त किये गये हैं लगातार तीन वर्ष की अवधि (अब तक की सेवा अवधि शामिल करते हुए) तक के। नियुक्त होना के पात्र होंगे। वैसे लेखा परीक्षक जो वर्ष 2006-2007 से पूर्व नियुक्त किये जा चुके हैं वे चार वर्ष की लगातार अवधि (अब तक की सेवा अ शामिल करते हुए) तक के लिए नियुक्त किये जा सकते हैं बशर्ते कि वे निर्धारित मानदण्डों एवं अन्य सामान्य अपेक्षाओं का अनुपालन करें।

वै. विजय

उप-प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यवा

(सहयोगी एवं अनुष

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली-110 002, दिनांक 28 फरवरी 2007

सं. 13 सी.ए. (परीक्षा)/मई/2007.—इंस्टीट्यूट की अधिसूचना सं. 13-सी.ए. (परीक्षा)/मई/2007 दिनांक 16 जनवरी, 2007 के आंशिक परिवर्तन के तहत, सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स व्यवसायिक शिक्षा-प्रथम, व्यवसायिक शिक्षा-द्वितीय, वृत्तिक सक्षमता (पी.सी.ई.) एवं फाइनल की परीक्षाएं व पोस्ट क्वालिफिकेशन पाठ्यक्रमों—मैनेजमेंट एकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम), टेक्स मैनेजमेंट पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम), कारपोरेट मैनेजमेंट पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम), इनश्योरेंस एवं रिस्क मैनेजमेंट (आई.आर.एम.), इन्टरनेशनल ट्रेड लाज एवं वर्ल्ड ट्रेड ऑरगनाइजेशन (आई.टी.एल. एवं डब्ल्यू.टी.ओ. परीक्षा) की परीक्षाएं जो 3 मई, 2007 से निर्धारित हुई थी पुर्ननिर्धारित कर दी गई हैं और अब यह परीक्षाएं 4 मई 2007 से 12 मई, 2007 तक होगी। पुर्ननिर्धारित परीक्षाओं की तिथियां निम्नप्रकार हैं:—

व्यवसायिक शिक्षा-प्रथम परीक्षा :—

[पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के चार्टर्ड रेगुलेशन 1998 के रेगुलेशन 25-बी (4) के अन्तर्गत है, के अनुसार]

4, 5, 7 और 8 मई 2007

प्रातः कालीन सत्र-8 बजे से 11 बजे तक (भारतीय समयानुसार)

व्यवसायिक शिक्षा-द्वितीय परीक्षा :—

[पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के रेगुलेशन 28-बी (5) के अन्तर्गत है, के अनुसार] और

वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम परीक्षा :—

[पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के रेगुलेशन 28-सी (3) के अन्तर्गत है, के अनुसार]

ग्रुप-I 4, 5 और 7 मई, 2007

ग्रुप-II 8, 9 और 10 मई, 2007

(दोपहर का सत्र-12 बजकर 30 मिनट से 3 बजकर 30 मिनट तक) (भारतीय समयानुसार)

फाइनल परीक्षा:—[पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के रेगुलेशन 31-बी (2) व संशोधित रेगुलेशन 31 (i) के अन्तर्गत है, के अनुसार]

ग्रुप-I 4, 5 और 8 मई, 2007

ग्रुप-II 9, 10, 11 और 12 मई, 2007

प्रातः कालीन सत्र-8 बजे से 11 बजे तक (भारतीय समयानुसार)

मैनेजमेंट एकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम परीक्षा), कारपोरेट मैनेजमेंट पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम) एवं टेक्स मैनेजमेंट पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम)

परीक्षाएँ:—(पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के चार्टर्ड रेगुलेशन, 1988 के "अनुसूची सी, डी, ई, के अन्तर्गत)

ग्रुप-I 9 और 10 मई, 2007

ग्रुप-II 11 और 12 मई, 2007

प्रातः कालीन सत्र-8 बजे से 11 बजे तक

(भारतीय समयानुसार)

इन्श्योरेंस एवं रिस्क मैनेजमेंट (आई.आर.एम.) परीक्षा :—

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 की 'अनुसूची जी' के अन्तर्गत)

माइयूल 1 से 4 9, 10, 11 और 12 मई, 2007

प्रातः कालीन सत्र-8 बजे से 11 बजे तक (भारतीय समयानुसार)

इन्टरनेशनल ट्रेड लाज एवं वर्ल्ड ट्रेड ऑरगनाइजेशन (आई.टी.एल. एवं डब्ल्यू.टी.ओ.) परीक्षा:—

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के "अनुसूची एच" के अन्तर्गत)

ग्रुप-ए 4, 5 और 7 मई, 2007

ग्रुप-बी 8, 9, और 10 मई, 2007

(दोपहर का सत्र-12 बजकर 30 मिनट से 3 बजकर 30 मिनट तक) (भारतीय समयानुसार)

सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सी.पी.टी.):—

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के रेगुलेशन 25 डी (3) व पाठ्य-विवरण जो कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स जनरल अगस्त 2006 अंक के पेज संख्या 291—293 व अगस्त 2006 अंक की विद्यार्थी पत्रिका के पेज संख्या 12-13 में छपा है, के अनुसार)

सत्र-I प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक (भारतीय समयानुसार)  
6 मई, 2007

(प्रातः कालीन सत्र) खंड क-लेखांकन के मूल तत्व  
खंड ख-वाणिज्यिक विधियां

सत्र-II दोपहर 12.30 बजे से 2.30 बजे तक (भारतीय समयानुसार) 6 मई, 2007

(दोपहर का सत्र) खंड ग-सामान्य अर्थशास्त्र  
खंड घ-परिमाणत्मक अभिक्षमता

परीक्षा केन्द्र तथा अन्य शर्तें पूर्व घोषित ही रहेंगी।

जी. सोमाशेखर  
संयुक्त सचिव (परीक्षा)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 2007

सं. यू. 16/53/99चि.3(आ.प्र.)—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम

की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.05.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राजकीय चिकित्सा आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ:--

डॉक्टर का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
डॉ. के. सुधाकर राव	5.12.2006 से 31.8.2007 तक	वारंगल (आ. प्र.)

डॉ. कमलेश कालरा  
चिकित्सा आयुक्त

दिनांक 13 फरवरी 2007

सं. यू. 16/53/2002चि.2(राज.)--कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.05.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राज्य चिकित्सा आयुक्त, जयपुर (राजस्थान) द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ:--

डॉक्टर का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
डॉ. वी. के. जैन	6.2.2007 से 5.2.2008 तक	बीकानेर (राजस्थान)

डॉ. कमलेश कालरा  
चिकित्सा आयुक्त

दिनांक 28 फरवरी 2007

सं. यू. 16/53/कर्नाटक/2003/चि.2--कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.05.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी

पूर्व हो, को राज्य चिकित्सा आयुक्त, बंगलौर द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ:--

डॉक्टर का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
डॉ. डी. साध्यानागराज	24.11.2006 से 23.11.2007	मैसूर, नंजनगढ़

डॉ. कमलेश कालरा  
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 2007

सं. एन-15/13/15/1/1997-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने 16 नवम्बर, 2006 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा पश्चिम बंगाल कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ पश्चिम बंगाल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात्:--

“मैदिनीपुर पश्चिम जिला के खड़गपुर नगर पुलिस स्टेशन और खड़गपुर स्थानीय पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत नगर पालिका और गैर-नगर पालिका (खड़गपुर रेलवे बन्दोबस्त)”

एम. सुन्दररामन  
निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/1/2/2006-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने 01 फरवरी, 2007 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आन्ध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात्:--

“आन्ध्र प्रदेश राज्य के महबूबनगर जिले के अमनगल्लु मण्डल स्थित “अमनगल्लु” राजस्व गाँव के सीमा के अन्तर्गत सभी क्षेत्र।

एम. सुन्दररामन  
निदेशक (यो. एवं वि.)

दिनांक 21 फरवरी 2007

सं. एन-15/13/14/08/2005-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा

प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने 01 अक्टूबर, 2006 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा तमिलनाडू कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडू राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात्:--

"बेगम्बर परिधि के ए. वेल्लोड, सीवल सरगु, पत्रिपट्टी, मुनिलैकोट्टे, सेट्टियपट्टी, कौलकोट्टे, अम्बतुरै, गान्धीग्राम के अन्तर्गत आने वाले राजस्व ग्राम।

एम. सुन्दररामन  
निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/14/02/2005-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने 01 दिसम्बर, 2006 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा तमिलनाडू कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडू राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात्:--

#### कैन्द का नाम

तेन्कासी परिधि के साम्बवर वडकरै करिवलम वण्डनल्लूर के अंतर्गत आने वाले राजस्व गाँव।

एम. सुन्दररामन  
निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/14/09/2005-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने 01 दिसम्बर, 2006 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा तमिलनाडू कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ

तमिलनाडू राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात्:--

"तमिलनाडू राज्य के जिला तथा तालुक मदुरै में मुनिचलै परिधि के राजस्व ग्राम उरगान्यट्टी, कलिमंगलम, वरिचियूर, नट्टारमंगलम और तुवरन्कुलम, सिवगंगै जिला के मानामदुरै तालुक के पूर्वती आदि क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले राजस्व गाँव।

एम. सुन्दररामन  
निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/1/8/2000-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने 01 दिसम्बर, 2006 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आन्ध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात्:--

(1) जग्गय्यापेट, गरिकपाडु, बलुसुपाडु, अन्नवरम् मुक्तेश्वरपुरम्, रविराला, वेदाद्रि, जयंतिपुरम्, के अग्रहारम्, बुदवाड, त्रिपुरवरम्, अनुमंचिपल्लि, शेर मोहम्मदपेट, राविकपाडु, तिरुमलगिरि, तोरगुंटापालेम्, चिल्लकल्लु, रामचंद्रुनिपेट ..... जग्गय्यापेट मंडल, कृष्णा जिला।

(2) कृष्णा जिले के वत्सवाई मंडल में मंगोल्लु, देचुपालेम्, गोपिनेनिपालेम्, वीरभद्रानिपालेम्, मक्कापेट, भीमवरम्।

और

(3) नल्गोण्डा जिले के कोदाड मंडल में नल्लबंडागुडेम्।

(4) नल्गोण्डा जिले के गेल्लवेरुड मंडल में दोण्डापाडु।

एम. सुन्दररामन  
निदेशक (यो. एवं वि.)

## RESERVE BANK OF INDIA

New Delhi, the 14th February 2007

DBOD No. Ret. BC. 57/12.01.001/2006-2007.—In exercise of the powers conferred under the sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 and in supersession of its notification DBOD. No. Ret. BC.44/12.01.001/2006-2007 dated December 11, 2006, the Reserve Bank of India hereby specifies that the average Cash Reserve Ratio (CRR) required to be maintained by Scheduled Commercial Banks shall, from effective dates mentioned below, be as indicated thereagainst :—

Effective Date (i.e., the fortnight beginning from)	CRR on net demand and time liabilities (per cent)
February 17, 2007	5.75
March 3, 2007	6.00

ANAND SINHA  
Executive Director

## DEPARTMENT OF GOVERNMENT &amp; BANK ACCOUNTS

(CENTRAL DEBT DIVISION)

Mumbai, the 15th February 2007

In pursuance of Rule 18 of the Public Debt Rules, 1946 made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of 20th April 1946 (as amended under the Notification No. F (8)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in extra ordinary Gazette No. 67 dated 21st February 1990), the following list of securities lost etc. in respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just for the month ended January 2007 is hereby advertised. All persons other than the respective claimants named below, who have any claim upon these securities should communicate immediately with Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai-400008.

The list has been divided into two parts, List "A" being securities now advertised for the first time and List "B" being the list of securities previously advertised.

## List "A"

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
Nil					

## List "B"

## CHENNAI CIRCLE 9% RELIEF BONDS 1999 (DEMAT)

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
MSC 001511	Rs. 60,000/-	K.V. Varghese	Cumulative	K.V. Varghese	01-16 November 2006

J.M. BAVA  
Asstt. Manager

## STATE BANK OF INDIA

Mumbai, the 3rd February 2007

SBD No. SBD/11/2007.—In exercise of the powers under sub-section (1) of Section 41 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, and with the approval of Reserve Bank of India, the State Bank of India has appointed the firms of Auditors noted against

each of the following subsidiary banks as Auditors of that Subsidiary Bank :

<u>Name of the Bank</u>	<u>Name of the Auditor</u>
State Bank of Bikaner and Jaipur	M/s. S C Ajmera & Co., 18 Technocrat Housing Society, Moti Magri Scheme, Udaipur-313 001.

	<p>M/s B. L. Ajmera &amp; Co., Malji Chhagalal Trust Building, M.I. Road, Jaipur-302001</p> <p>M/s O.P. Bagla &amp; Co., 8/12, Kalkaji Extension, New Delhi-110019.</p> <p>M/s Elias George &amp; Co., B-16, HIG Flats, Gandhinagar, Kadavanthra, Cochin-682020.</p> <p>M/s C.R. Mehta &amp; Co., 21 Golimar Garden, Opp. Bharat Petroleum, Bawani Singh Road, Jaipur-302001.</p>	<p>State Bank of Mysore</p>	<p>M/s B.V. Rao &amp; Co., Flat No. 6, Amrutha Court, 30-8-29, Bhanu Street, Daba Gardens, Visakhapatnam-530020.</p> <p>M/s S.K. Basu &amp; Co., Temple Chambers, 2nd Floor, 6 Old Post Office Street, Kolkata-700001.</p> <p>M/s H.S. Ahuja &amp; Co., H/61, Gobind Mansion, Connaught Circus, New Delhi-110001.</p> <p>M/s L.K. Kejriwal &amp; Co., 508 Ashiana Towers, Exhibition Road, Patna-800 001.</p>
State Bank of Hyderabad	<p>M/s S Mann &amp; Co., 1006, 10th Floor, Vikrant Tower, Rajinder Place, New Delhi-110008.</p> <p>M/s Deogar &amp; Associates, 13, Community Centre, East of Kailash, New Delhi 110065.</p> <p>M/s Kapoor Tandon &amp; Co., 24/57, Opposite Central Chest Clinic, Birhana Road, Kanpur-208001.</p> <p>M/s Dinesh Mehta &amp; Co., 21, Dayanand Marg, Daryaganj, New Delhi-110002.</p> <p>M/s Sreedhar Suresh &amp; Rajgopalan, 3-B, Green Heaven, New 26 IIIrd Main Road, Gandhi Nagar Adyar New No. 19, Chennai -600020.</p>	<p>State Bank of Patiala</p>	<p>M/s Gupta Gupta &amp; Associates, 142, Sec. 3, Trikuta Nagar, Jammu-180 012.</p> <p>M/s Khanna &amp; Co., 26, Krishan Niketan, Delhi Gate, New Delhi-110002.</p> <p>M/s Ramamoorthy (N) &amp; Co., Gulshan Manzil, 4-1-1229, Bagulkunta, Hyderabad-500 001.</p> <p>M/s Gupta Bhalla &amp; Associates, SCO 837-38, Sector 22-A Chandigarh-160022.</p> <p>M/s N D Kapur &amp; Co., 2-A, Shanker Market, Connaught Circus, New Delhi-110001.</p>
State Bank of Indore	<p>M/s Sharma Goel &amp; Co., A 47, Lower Ground Floor, Hauz Khas, New Delhi-110016.</p> <p>M/s Ghiya &amp; Co., D-23, Indrapuri Colony, Lal Kothi, Pankaj Singhvi Marg, Jaipur-302005.</p> <p>M/s Raj Har Gopal &amp; Co., 412, Ansal Bhavan, 16, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi- 110001.</p> <p>M/s M. Mehta &amp; Co. 11/5, South Tukoganj, Nath Mandir Road, Indore-452001</p>	<p>State Bank of Saurashtra</p>	<p>M/s Rawla &amp; Co., 504, Surya Kiran, 19, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001.</p> <p>M/s Guha Nandi &amp; Co., Commerce House 5th Floor, Room 8 D &amp; E, 2 A, Ganesh Chandra Avenue, Kolkata-700013.</p> <p>M/s Chokshi &amp; Chokshi 101/102, Kashamalaya, 1st floor, 37, Sir V. Thackersey Marg, New Marine Lines, Mumbai-400020.</p> <p>M/s A.R. Vishwanathan &amp; Co., 32/2, 1st Floor,</p>



5th Main Road,  
Chamraj Pet,  
Bangalore-560018.

State Bank of Travancore M/s SRI Associates,  
3B, Garstin Place,  
2nd Floor,  
Kolkata-700 001.

M/s Rao Associates,  
17/1, Seshadri Road,  
Gandhinagar,  
Bangalore-560 009.

M/s K. C. Bhattacharjee &  
Paul, 2 Church Lane,  
3rd Floor, Room No. 304-B,  
Kolkata-700001.

M/s A. J. Shah & Co.,  
Fort Chambers, C Block,  
65, Tarmarind Lane, Fort,  
Mumbai-400 023.

M/s M. L. Puri & Co.,  
407, New Delhi Hous, 27,  
Barakhamba Road,  
Connaught Place,  
New Delhi-110001.

2. The auditors have been appointed for the accounting period ending 31st March 2007. The tenure of SCAs who will be appointed from the year 2006-07 and onwards may continue for a period of three years in one spell, including the period already served by them as statutory central auditors with other public sector bank(s). However, an audit firm appointed before 2006-07 may continue for a period of four years in one spell. The appointment in both the cases will, however, continue to be made on an annual basis, subject to their complying with the prescribed norms and other usual requirements.

Sd/- ILLEGIBLE  
Dy. Managing Director &  
Group Executive (A&S)

#### THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002, the 28th February 2007

No. 13-CA (EXAM)/M/2007.—In partial modification of the Institute's Notification No. 13-CA(EXAM)/M/2007 dated 16th January 2007, it is notified for general information that the Chartered Accountants Professional Education-I, Professional Education-II, Professional Competence (PCE) and Final examinations, Post Qualification Courses in Management Accountancy Course (MAC Part-I), Corporate Management Course (CMC Part-I), Tax Management Course (TMC Part-I), Insurance and Risk Management (IRM) and International Trade Laws and World Trade Organisation

(ITL&WTO) examinations scheduled earlier to be held from 3rd May to 11 May 2007 have now been rescheduled to commence from 4th May 2007 and will be held upto 12th May 2007. The revised examination-wise date schedule is as given below :

#### PROFESSIONAL EDUCATION-I EXAMINATION :

[As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 25-B (4) of the Chartered Accountants Regulations, 1988].

4th, 5th, 7th and 8th May, 2007

(Morning Session – 8.00 a.m. to 11 a.m.) (IST)

#### PROFESSIONAL EDUCATION-II EXAMINATION

[As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 28-B (5) of the Chartered Accountants Regulations, 1988.] AND

#### PROFESSIONAL COMPETENCE COURSE EXAMINATION (PCE)

[As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 28-C (3) of the Chartered Accountants Regulations, 1988.]

Group-I: 4th, 5th and 7th May, 2007

Group-II: 8th, 9th and 10th May, 2007

(Afternoon Session – 12.30 p.m. to 3.30 p.m.) (IST)

#### FINAL EXAMINATION

[As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 31 (2) since revised as Regulation 31 (i) of the Chartered Accountants Regulations, 1988].

Group-I: 4th, 5th and 7th May, 2007

Group-II: 9th, 10th, 11th and 12th May, 2007

(Morning Session – 8.00 a.m. to 11.00 a.m.) (IST)

#### MANAGEMENT ACCOUNTANCY COURSE (MAC PART-I), CORPORATE MANAGEMENT COURSE (CMC PART-I), TAX MANAGEMENT COURSE (TMC PART-I) EXAMINATIONS :

[As per provision contained in Schedule "C", "D" and "E" of Chartered Accountants Regulations, 1988].

Group-I: 9th and 10th May, 2007

Group-II: 11th and 12th May, 2007

(Morning Session – 8.00 a.m. to 11.00 a.m.) (IST)

#### INSURANCE AND RISK MANAGEMENT (IRM) COURSE EXAMINATION :

[As per provisions contained in Schedule "G" of Chartered Accountants Regulations, 1988.]

Modules I to IV: 9th, 10th, 11th and 12th May, 2007

(Morning Session – 8.00 a.m. to 11.00 a.m.) (IST)

**INTERNATIONAL TRADE LAWS AND WORLD  
TRADE ORGANISATION (ITL&WTO) COURSE  
EXAMINATION**

(As per provisions contained in Schedule "H" of Chartered Accountants Regulations, 1988).

Group A: 4th, 5th and 7th May, 2007

Group B: 8th, 9th and 10th May, 2007

(Afternoon Session – 12.30 p.m. to 3.30 p.m.) (IST)

**COMMON PROFICIENCY TEST (CPT)**

[As per provisions of Regulation 25D (3) of the Chartered Accountants Regulations, 1988 and the syllabus as published in the pages 291-293 of the journal the Chartered Accountant August 2006 issue and pages 12-13 of Chartered Accountants Students' Newsletter August 2006 issue].

First Session 9.00 AM to 11.00 AM (IST) on 6th  
(i.e. Morning Session) May 2007

Section A—Fundamentals of  
Accounting

Section B—Mercantile Law

Second Session 12.30 PM to 2.30 PM (IST) on 6th  
(i.e. Afternoon Session) May 2007

Section C—General Economics

Section D—Quantitative

Aptitude

The Centres of examinations and other conditions shall remain the same.

**G. SOMASEKHAR**  
Jt. Secy. (Exams.)

**EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**

New Delhi, the 6th February 2007

No. U-16/53/99/Med. III (A.P.).—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by State Medical Commissioner, Andhra Pradesh for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

Name	Period	Name of Centre
Dr. K. Sudhakar Rao	5.12.2006 to 31.8.2007	Warangal (A.P.)

(DR). KAMLESH KALRA

Medical Commissioner

The 13th February 2007

No. U-16/53/2002/Med. II (Raj.).—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by State Medical Commissioner, Jaipur (Rajasthan) for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

Name	Period	Name of Centre
Dr. V. K. Jain	6.2.2007 to 5.2.2008	Bikaner (Rajasthan)

(DR). KAMLESH KALRA  
Medical Commissioner

The 28th February 2007

No. U-16/53/Kart/2003/Med. II.—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by State Medical Commissioner, Bangalore for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

Name	period	Name of Centre
Dr. D. Sathya Nagaraj	24.11.2006 to 23.11.2007	Mysore & Nanjangud

(DR). KAMLESH KALRA  
Medical Commissioner

New Delhi, the 20th February 2007

No. N-15/13/15/1/1997-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance

Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 16th November, 2006 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the West Bengal Employees' State Insurance (Medical Benefits) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of West Bengal namely :

"Municipal and Non-Municipal (Kharagpur Railway Settlement) area under Kharagpur Town P.S. and Kharagpur Local P.S. of District – Medinipur (West)."

M. SUNDARARAMAN  
Dir. (P&D)

No. N-15/13/1/2/2006-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st February, 2007 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely.

"All the areas falling within the limits of Revenue Village of 'Amanagallu' in Amanagallu Mandal in Mahaboobnagar District of Andhra Pradesh.

M. SUNDARARAMAN  
Director (P&D)

The 21st February 2007

No. N-15/13/14/08/2005-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st October, 2006 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely.

Centre Name	Areas Comprising the Revenue villages of
Begumbar Peripherals	1. A. Vellode 2. Seeval Saragu 3. Pannipatti 4. Munilaikottai 5. Chinnalapatti 6. Settiapatti 7. Kellakottai

8. Ambathurai

9. Gandhigram

M. SUNDARARAMAN  
Director (P&D)

No. N-15/13/14/02/2005-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st December, 2006 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely.

Centre Name	Areas Comprising the Revenue villages of
Tenkasi Peripherals	Sambavar Vadakarai Karivalam Vandanallur

M. SUNDARARAMAN  
Director (P&D)

No. N-15/13/14/09/2005-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st December, 2006 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely.

Centre Name	Areas Comprising the Revenue villages of
Peripherals Areas of Munichalai	Uranganpatti Kalimangalam Varichiyoor Nattarmangalam and Thuvarankulam of Madurai North Taluk, Madurai District. Poovanthi of Manamadurai Taluk of Sivagangai District.

M. SUNDARARAMAN  
Director (P&D)

No. N-15/13/1/8/2000-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st December, 2006 as the date

from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely.

"All the areas falling within the revenue villages of Jaggaiahpet, Garikapadu, Balusupadu, Annavaram, Mukteswarapuram, Ravirala, Vedadri, Jayantipuram, K. Agraharam, Budawada, Tripuravaram, Anumanchipalli, Sher Mohammedpet, Ravikampadu, Tirumalgiri, Torraguntapalem, Chillakallu, Ramachandrunipet in

Jaggaiahpet Mandal in Krishna District.

Mangollu, Dechupalem, Gopinenipalem, Veerabhadrunipalem, Makkapeta, Bhimavaram in Vatsavai Mandal in Krishna District.

AND

Nallabandagudem in Kodad Mandal in Nalgonda District.

Dondapadu in Mellacheruvu Mandal in Nalgonda District."

M. SUNDARARAMAN  
Director (P&D)